

अनुक्रमांक

नाम

935

829

2023

वाणिज्य

(Hindi & English Versions)

| पूर्णांक : 70

समय : तीन घण्टे 15 मिनट |

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है ।

Note : First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

निर्देश :

- i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- ii) इस प्रश्नपत्र के दो खण्ड, खण्ड - अ तथा खण्ड - ब हैं ।
- iii) खण्ड - अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओ० एम० आर० उत्तर पत्रक पर देने हैं ।
- iv) खण्ड - अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओ० एम० आर० उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओ० एम० आर० उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात् उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा हाइटलर का प्रयोग न करें ।
- v) प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं ।
- vi) खण्ड - ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं ।
- vii) खण्ड - ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें ।
- viii) प्रथम प्रश्न से आरम्भ कीजिए तथा अन्तिम प्रश्न तक करते जाइए । जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए ।

Instructions :

- i) All questions are compulsory.
- ii) This question paper has *two* Parts - **Part-A** and **Part-B**.
- iii) **Part-A** consists of **20** multiple choice questions of one mark each that have to be answered on OMR Answer Sheet.
- iv) For **Part-A** read the question-wise instructions and mark your answer on the given OMR Answer Sheet only. Do not erase, cut or use whitener on the OMR Answer Sheet after answering.
- v) Marks of the questions are mentioned against them.
- vi) **Part-B** consists of descriptive type questions of **50** marks.
- vii) All the questions of **Part-B** are to be attempted all at a time.
- viii) Start from the first question and go up to the last question. Do not waste your time on the question you cannot solve.

खण्ड - अ

Part - A

(बहुविकल्पीय प्रश्न)

(Multiple Choice Questions)

निर्देश : प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय हैं । निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के चार-चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं । उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार ओ० एम० आर० उत्तर पत्रक पर अंकित करें ।

Instruction : Question Nos 1 to 20 are Multiple Choice Type. Four alternative answers are given in each question. Select the correct alternatives out of them and mark them in **OMR** Answer Sheet serially.

1. तलपट किसके लिये उपयोग किया जाता है ?

- (A) यह एक वित्तीय विवरण है
- (B) यह आर्थिक चिट्ठे के शेषों को रिकार्ड करता है
- (C) यह लेखांकन चक्र के लिये योगदान नहीं करता है
- (D) यह खातों के शेष को रिकार्ड करता है

1. What is the trial balance used for ?
 - (A) It is financial statement
 - (B) It records the balance of balance sheet
 - (C) It does not contribute to the accounting cycle
 - (D) It records balance of accounts 1
2. चकावा घातन हे
 - (A) वास्तविक खाता
 - (B) नामांकन खाता
 - (C) व्यक्तिगत खाता
 - (D) इनमें से कोई नहीं 1
2. Outstanding salary is
 - (A) Real Account
 - (B) Nominal Account
 - (C) Personal Account
 - (D) None of these 1
3. भारतीय रिजर्व बैंक को स्थापना कब हुई थी ?
 - (A) 1955
 - (B) 1949
 - (C) 1935
 - (D) 1964 1
3. When was Reserve Bank of India established ?
 - (A) 1955
 - (B) 1949
 - (C) 1935
 - (D) 1964 1
4. विनिमय बिल कोन लिखता है ?
 - (A) लेनदार
 - (B) देनदार
 - (C) लेखक
 - (D) इनमें से कोई नहीं 1
4. Who draws a bill of exchange ?
 - (A) Creditor
 - (B) Debtor
 - (C) Drawer
 - (D) None of these 1

5. कौन-सी मशीन लिफाफों, रैपरो, समाचार पत्रों आदि पर पता छापती है ?
 (A) फैक्स मशीन (B) जोड़ने वाली मशीन
 (C) गणना करने वाली मशीन (D) एड्रेसिंग मशीन 1
5. Which machine prints addresses on envelopes, wrappers, newspapers etc. ?
 (A) Fax machine (B) Adding machine
 (C) Calculating machine (D) Addressing machine 1
6. निम्नलिखित में से कौन-सा बड़े पैमाने पर व्यापार का रूप नहीं है ?
 (A) विभागीय भंडार (B) सुपर बाजार
 (C) बहुविकल्पी शृंखला भंडार (D) प्रोविजन स्टोर 1
6. Which of the following is not a form of Large Scale Trading ?
 (A) Departmental store (B) Supermarket
 (C) Multiple chain store (D) Provision store 1
7. माल की आपूर्ति की दशा में बीजक निर्गमित करने की तिथि क्या होगी ?
 (A) माल को हटाने के समय या उसके पहले की किसी तिथि
 (B) अग्रिम प्राप्त होने की तिथि
 (C) माल के प्रावधान की तिथि
 (D) इनमें से कोई नहीं 1
7. What shall be the due date to issue invoice in case of supply of goods ?
 (A) Any date before or at the time of removal of goods
 (B) Date of receipt of advance
 (C) Date of provision of goods
 (D) None of these 1
8. समाशोधन गृह भारत में प्रशासित किये जाते हैं
 (A) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (B) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा
 (C) कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (D) इनमें से सभी के द्वारा 1

8. Clearing house in India, is administered by
 (A) Reserve Bank of India (B) State Bank of India
 (C) Some Nationalised Banks (D) All of these 1
9. भारतीय रिज़र्व बैंक है
 (A) व्यापारिक बैंक (B) भण्डारण बैंक
 (C) मुख्य बैंक (D) देश का केन्द्रीय बैंक 1
9. Reserve Bank of India is
 (A) commercial bank (B) clearing house
 (C) main bank (D) central bank of the country 1
10. इम्पीरियल बैंक का स्टेट बैंक में परिवर्तन का कारण था
 (A) कृषि व्यवसाय के प्रति लापरवाही (B) अधिकारों का दुरुपयोग
 (C) शाखाएं खोलने की गलत नीति (D) इनमें से सभी 1
10. Reason for conversion of Imperial Bank into State Bank was
 (A) Negligence of agriculture business
 (B) Misuse of power
 (C) Faults in branch opening policy
 (D) All of these 1
11. व्यापारिक बैंकों का कार्य है
 (A) जमाएँ स्वीकार करना (B) ऋण प्रदान करना
 (C) एजेंटों के रूप में कार्य करना (D) इनमें से सभी 1
11. Function of commercial bank is
 (A) accepting deposits (B) providing loan
 (C) functioning as agency (D) all of these 1
12. निम्नलिखित में से कौन-सा देशी बैंकर की श्रेणी में आता है ?
 (A) सहकारी बैंक (B) महाजन
 (C) भूमि विकास बैंक (D) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1

12. Among the following which one comes under the class of indigenous banker ?
- (A) Co-operative Bank (B) Mahajan
(C) Land Development Bank (D) Regional Rural Bank 1
13. बैंक क्या है ?
- (A) एक व्यक्ति (B) एक संस्था
(C) एक समिति (D) इनमें से सभी 1
13. What is Bank ?
- (A) An Individual (B) An Institution
(C) A Committee (D) All of these 1
14. उपयोगिता सामान्यतः सम्बन्धित है
- (A) सन्तुष्टि से (B) आवश्यकता से
(C) उपयोगिता से (D) इनमें से कोई नहीं 1
14. Utility is generally related to
- (A) Satisfaction (B) Necessity
(C) Usefulness (D) None of these 1
15. निम्नलिखित में से सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम किस पर आधारित है ?
- (A) माँग के नियम (B) प्रत्याय के नियम
(C) पूर्ति के नियम (D) इनमें से कोई नहीं 1
15. Which one of the following is the basis of diminishing marginal utility ?
- (A) Law of Demand (B) Laws of Returns
(C) Law of Supply (D) None of these 1
16. हमें अपनी वचन को बैंक में रखना चाहिये क्योंकि
- (A) यह सुरक्षित है (B) व्याज प्राप्त होता है
(C) किसी भी समय निकाला जा सकता है (D) इनमें से सभी 1

16. We should keep our savings with banks because it
 (A) is safe (B) earns interest
 (C) can be withdrawn any time (D) all of these 1
17. बैंक ब्याज का भुगतान करता है
 (A) जमाओं पर (B) ऋणों पर
 (C) (A) और (B) दोनों पर (D) इनमें से कोई नहीं 1
17. Bank pays interest on
 (A) Deposits (B) Loans
 (C) Both (A) and (B) (D) None of these 1
18. सिक्के निर्गमित किये जाते हैं
 (A) भारत सरकार द्वारा (B) नाबार्ड द्वारा
 (C) सार्वजनिक उपक्रम द्वारा (D) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1
18. Coins are issued by
 (A) Government of India (B) NABARD
 (C) Public sector (D) State Bank of India 1
19. अन्तिम खाता है एक
 (A) खाता बही (B) लेखा
 (C) विवरण (D) लेखा और विवरण 1
19. Final Account is a/an
 (A) Ledger (B) Account
 (C) Statement (D) Account and Statement 1
20. प्रमिषा पत्र में कितने पक्षकार होते हैं ?
 (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4 1
20. How many parties are there in promissory note ?
 (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4 1

[Turn over

छण्ड - ब

Part - B

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Very Short Answer Type Questions)

5 × 2 = 10

1. सम्भाव्य दायित्व से आप क्या समझते हैं ?
1. What do you understand by contingent liabilities ?
2. विनिमय विपत्र कितने प्रकार से स्वीकृत किये जाते हैं ?
2. In how many ways is a bill of exchange accepted ?
3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य बैंक के क्या कार्य किये जाते हैं ?
3. What are the normal banking functions performed by Reserve Bank of India ?
4. एकल व्यवसाय की विशेषता लिखिये ।
4. Write the characteristics of sole trading.
5. उस मशीन को समझाइये जिसके द्वारा एक कर्मचारी के आने और जाने का समय रिकार्ड होता है ।
5. Explain about the machine which records the time of arrival and departure of an employee.

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Short Answer Type Questions)

4 × 4 = 16

6. विभिन्न प्रकार की हुण्डियों को स्पष्ट कीजिये ।
6. Explain various types of Hundies.
7. थोक व्यापारी और एकल व्यापारी में अन्तर कीजिये ।
7. Differentiate between wholesale trader and sole trader.
8. व्यापारिक बैंकों को कठिनाइयों लिखिये ।
8. Write the difficulties of commercial banks.
9. व्यय और बचत का वर्णन कीजिये ।
9. Describe expenditure and saving.

(दीर्घ उत्तरांश प्रश्न)
(Long Answer Type Questions)

3 × 8 = 24

10. श्री घनश्याम दास एण्ड ब्रदर्स का 31 मार्च, 2022 को समाप्त होनेवाले वर्ष का तलवट नीचे दिया गया है। इससे आप वर्ष 2022 का व्यापारिक एवं लाभ-हानि खाता एवं 31 मार्च, 2022 का गिडु तैयार कीजिये :

4 × 4

	(रु०)		(रु०)
रहतिया 1 अप्रैल, 2021	16,000	बिक्री	1,30,000
क्रय	90,000	क्रय वापसी	800
आन्तरिक भाड़ा	1,250	कटौती	400
बिक्री वापसी	600	कमीशन	750
बोमा	1,500	अशोध्य ऋणार्थ प्रावधान	400
व्यापारिक व्यय	3,600	पूँजी	32,000
घंतेन	8,200	बैंक का ऋण	4,400
अशोध्य ऋण	300	लेन्धर	11,600
देनदार	17,000	देय बिल	2,000
भयन	24,000		
मशीनरी	10,000		
आहरण	4,000		
प्राप्य बिल	4,500		
नकद	1,400		
	1,82,350		1,82,350

निम्न समायोजन आवश्यक हैं :

(अ) 31 मार्च, 2022 को अन्तिम रहतिया रु० 12,000 था।

(ब) पूँजी पर प्रतिवर्ष व्याज 5% है।

(स) घंतेन के रु० 800 देना बाकी था।

(द) बीमा का रु० 150 पूर्वदत्त था ।

(य) भयन पर 2% और मशीनरी पर 10% लागू काटना है, अशोध्य ऋण के लिये प्रावधान देनदारों पर 5% करना है, रु० 200 कमीशन मिलना बाकी है ।

अथवा

अन्तिम खातों का क्या अभिप्राय है ? चिट्ठे को अन्तिम खातों में क्यों शामिल किया जाता है ?

3 + 5

10. Below is given the Trial Balance of Shri Ghanashyam Das & Brothers in respect of the year ending 31st March, 2022. Prepare his Trading and Profit & Loss Account for the year 2022 and his Balance Sheet as on that date :

4 + 4

	(Rs.)		(Rs.)
Stock 1st April, 2021	16,000	Sales	1,30,000
Purchase	90,000	Purchase Returns	800
Carriage Inward	1,250	Discount	400
Sales Return	600	Commission	750
Insurance	1,500	Provision for Bad debts	400
Trade Expenses	3,600	Capital	32,000
Salaries	8,200	Bank Loan	4,400
Bad debts	300	Creditors	11,600
Debtors	17,000	Bills Payable	2,000
Building	24,000		
Machinerv	10,000		
Drawings	4,000		
Bill Receivable	4,500		
Cash	1,400		
	1,82,350		1,82,350

Following adjustments are necessary :

- (a) Closing stock on 31st March, 2022 was Rs. 12,000.

- (b) Interest @5% p.a. on capital.
- (c) Outstanding salary was Rs. 800.
- (d) Insurance prepaid Rs. 150.
- (e) Depreciation to be done on building at 2% & on machinery 10%.
Provision for Doubtful debt on debtors 5%, commission earned but not received Rs. 200.

OR

What is meant by Final Account ? Why is Balance Sheet included in final accounts ?

3 + 5

11. मेसर्स अशोका एजेंसियों, लखनऊ ने निम्नांकित माल मेसर्स कनौजिया ब्रदर्स, फैजाबाद को भेजा है :

- (i) 10 पेटी "गंगा" साबुन (प्रत्येक पेटी में 120 टिकिया साबुन हैं), दर रु० 70 प्रति दर्जन ।
- (ii) 7 पेटी "पैराशूट नॉरियल तेल" (प्रत्येक पेटी में 200 मिली का 252 शॉशियों हैं) दर रु० 80 प्रति दर्जन शॉशियों ।
- (iii) 32 टॉन "डालडा" घनस्पति घी (प्रत्येक टॉन 5 किग्रा), दर रु० 35 प्रति किग्रा ।
- (iv) 12 पेटी "लाइफ़ाव" साबुन (प्रत्येक पेटी में 10 दर्जन साबुन हैं), दर रु० 65 प्रति दर्जन ।
ग्राहकों को $7\frac{1}{2}\%$ व्यापारिक छूट उपलब्ध है ।

माल भेजने में - (a) पैकिंग-व्यय रु० 12 प्रति पेटी, घनस्पति घी पर रु० 2 प्रति टॉन,
(b) डेला भाड़ा - रु० 80, (c) रेल भाड़ा - रु० 320 तथा (d) बीमा-व्यय रु० 120 ।

उपयुक्त विवरण के आधार पर उचित प्रारूप में बीजक तैयार कीजिये ।

8

अथवा

चैक के रेखांकन से आप क्या समझते हैं ? यह कितने प्रकार का होता है ?

4 + 4

11 M/s Ashoka Agencies, Lucknow, sends the following goods to M/s Kanaujia Brothers of Faizabad :

- (i) 10 Boxes "Ganga" Soap (Every box contains 120 pieces of soap)
@ Rs. 70 per dozen.

[Turn over

- (ii) 7 Boxes 'Parachute Coconut Oil' (Every box contains 252 bottles of 200 ml each) @ Rs. 80 per dozen of bottles
- (iii) 32 Tin 'Dalda' vanaspathi ghee (Every tin of 5 kg), @ Rs. 35 per kg
- (iv) 12 Boxes of 'Lifebuoy' Soap (Each box contains 10 dozen of soaps), @ Rs. 65 per dozen. 7% Trade discount is available for customers

While sending goods (a) Packing charges Rs. 12 per box, Dalda ghee @ Rs. 2 per tin, (b) Carriage - Rs. 80, (c) Railway freight - Rs. 320 and (d) Insurance expenses Rs. 120.

On the basis of above detail prepare an invoice in proper format

8

OR

What do you understand by crossing of cheque? Write the types of it

4 + 4

12. नीम्बाल तृणबीजिका हस्त के नियम की व्याख्या कीजिये और समझाइये ।

8-

अथवा

देशी बैकर के गुण और दोषों की व्याख्या कीजिये । हमारे देश में इसका क्या महत्व है ?

3 + 3 + 2

12. State and explain the law of diminishing marginal utility

8

OR

Explain the advantages and disadvantages of indigenous banker. What is its importance in our country?

3 + 3 + 2